

प्रेषक,

डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: ०७ मई, 2018

विषय:- भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ श्रेणी-2 में सृजित कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक), के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-664/स्था0/वे0विसंगति/प्रस्ताव/2017-18 दिनांक: 28.12.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा दिनांक-31 अक्टूबर, 2017 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ श्रेणी-2, में सृजित कनिष्ठ प्रवक्ता (वानस्पतिक) का अपुनरीक्षित वेतनमान वेतनबैण्ड ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹ 4200 को वेतनमान ₹9300-34800 ग्रेड पे ₹4600(पुनरीक्षित वेतनमान ₹44900-142400-L-7) में इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उच्चीकृत वेतनमान का समावेश सुसंगत सेवा नियमावली में यथासमय कर लिया जाय।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन का निर्धारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016" के नियम 13(IV) के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या: 146/XXVII(7)/2018 दिनांक: 23 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या:- ०८ (1) / XVI-2 / 18 / 19(26) / 2015, तददिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड।
- 3- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 5- निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- 8- निदेशक, राजकोषीय बजट संसाधन, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 10- वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 एवं 04, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव